



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 26-11-2021

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-11-26 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-11-27	2021-11-28	2021-11-29	2021-11-30	2021-12-01
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	24.0	24.0	25.0	26.0	25.0
न्यूनतम तापमान(से.)	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	90	90	85	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	140	140	140	310	310
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	1	1	1	2

मौसम सारांश / चेतावनी:

विगत सात दिनों (19 – 25 नवम्बर, 2021) में 0.0 मिमी वर्षा हुई व आसमान साफ रहा। अधिकतम तापमान 24.0 से 29.0 डि०से० एवं न्यूनतम तापमान 8.4 से 15.9 डि०से० के बीच रहा तथा वायु में सुबह 0712 बजे सापेक्षित आर्द्रता 85 से 95 प्रतिशत व दोपहर 1412 बजे सापेक्षित आर्द्रता 31 से 43 प्रतिशत एवं हवा 0.9 से 4.5 कि०मी० प्रति घंटा की गति से मुख्यतः पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से चली। आगामी पांच दिनों में मौसम साफ रहेगा। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 24.0 से 26.0 व 7.0 से 11.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा के 6.0 किमी/घंटे की गति से दक्षिण-पूर्व व उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है। ईआरएफएस के अनुसार, 1 से 7 दिसम्बर के दौरान राज्य में वर्षा सामान्य से कम तथा अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य रहने का अनुमान है।

सामान्य सलाहकार:

किसान भाई पिछले सप्ताह के मौसम, मौसम पूर्वानुमान और मौसम आधारित कृषि सलाह प्राप्त करने के लिए "मेघदूत ऐप" तथा आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान हेतु "दामिनी ऐप" डाउनलोड करें। मेघदूत व दामिनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ताओं) से डाउनलोड किया जा सकता है। पशुओं को सरदी से बचाव के लिए पशुघर का प्रबंध ठीक से करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में मौसम साफ रहेगा। फसलों में आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई करें। रबी फसलों का विभिन्न रोगों से बचाव हेतु, बुवाई से पूर्व बीज को उपचारित अवश्य करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	गेहूँ की बुवाई पूर्ण करें।
अरहर (लाल चना/ अरहर)	अरहर की कटाई करें।
लहसुन	लहसुन की फसल में निराई गुड़ाई एवं सिंचाई करें।
सरसों	समय पर बोई गई पीली सरसों की फलियो में दाना भरते व देर से बोई गई फसल में फूल आने से पूर्व हल्की सिंचाई करें
रेपसीड	समय पर बोई गई तोरिया की फलियो में दाना भरते व देर से बोई गई फसल में फूल आने से पूर्व हल्की सिंचाई करें

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
प्याज	प्याज के खेत में रोपाई से 3-4 हफते पूर्व प्रति हेक्टेयर 25-30 कुंटल गोबर की सड़ी खाद मिला दें। रोपाई हेतु प्याज की 7-8 सप्ताह पुरानी पौध का प्रयोग करें। प्याज की रोपाई, बड़ी प्याज हेतु 15x10 सेमी तथा छोटी प्याज हेतु 8x5 सेमी की दूरी पर करें।
टमाटर	जिनकी फसले 1 माह की है वो यूरिया की पहली टॉप ड्रेसिंग करे व जिनकी फसले दो माह की होने वाली है वे यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग करें। इस समय किसान भाईयों की टमाटर की फसल में पछेती झुलसा रोग की समस्या देखी जा रही है अतः टमाटर की फसल में पछेती झुलसा रोग की रोकथाम हेतु मैन्कोजेब का 3ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। बीमारी बढ़ने पर कर्जेट का 2.5 ग्राम प्रति लीटर का प्रयोग करें।
गोभी	फूल गोभी में हल्की सिंचाई करें। मध्यकालीन गोभी के फूलों की तोड़ाई कर बाजार भेंजें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	भैंसों का मदकाल अक्टूबर-नवम्बर तक होता है, इसलिए इन महीनो में मादा भैंसों में मदकाल के लक्षणों का सुबह- शाम निरीक्षण करें, ताकि गर्भाधान की प्रक्रिया समय से सम्पन्न करायी जा सके। इस बदलते मौसम में नवजात पशुओं में निमोनिया की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए पशुओं की आवास व्यवस्था को सुदृढ़ करें व आहार में गर्म चीजें दें।
गाय	इस बदलते मौसम में नवजात पशुओं में निमोनिया की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए पशुओं की आवास व्यवस्था को सुदृढ़ करें व आहार में गर्म चीजें दें।